

## Mirza International Limited

A-7, Mohan Coop. Indl. Estate, Mayapuri, New Delhi - 110044 (India)  
Ph. +91 11 4095 9500 / 9501, 2695 9553  
Fax. +91 11 2695 0499  
CIN : L19129UP1979PLC004821  
E-mail : marketing@redtapeindia.com  
Website : www.redtape.com

### NEAPS/BSE ONLINE

24<sup>th</sup> March, 2021

**The Corporate Relationship Dept.,  
BSE Ltd.,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001**

**The Secretary,  
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No. C/1, G-Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Intimation of notice published in newspapers regarding Transfer of Shares in physical mode**

This is to inform you that the Company has received a request regarding transfer of shares in physical mode pursuant to the Circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated 6<sup>th</sup> September, 2018 notified by SEBI regarding the standardized norms for transfer of shares in physical mode as mentioned below:

Folio No.	Name of the Transferor and Address	Name of the Transferee and Address	No. of Shares	Distinctive Nos. From-To
MTL007718	Shushila Makwana Kajal Makwana Address: 1, Vaishali Nagar, Nandanvan Raija Road, Near Railway Fatak, Rajkot-360001	Rajendra R Mehta Address: 22, New Jagnath, Opp Dr. Dastur's Hospital, Rajkot-360001	1000	479301- 480300

Further, we would like to inform you that the Company has published newspaper advertisement giving notice of proposed transfer. Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the aforesaid publication in the following newspapers:

1. Business Standard (English) published on Wednesday, 24<sup>th</sup> March, 2021
2. Business Standard (Hindi) published on Wednesday, 24<sup>th</sup> March, 2021

For MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

*[Signature]*  
Company Secretary

Registered & HO :  
14/6, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (Uttar Pradesh)  
Ph. +91 512 253 0775 Fax. +91 512 253 0166  
Email : mirzaknp@redtapeindia.com  
Website : www.mirza.co.in




## Mirza International Limited

A-7, Mohan Coop. Indl. Estate, Mathura Road,  
New Delhi - 110044 (India)  
Ph. +91 11 4095 9500 / 9501, 2695 9553  
Fax. +91 11 2695 0499  
CIN : L19129UP1979PLC004821  
E-mail : marketing@redtapeindia.com  
Website : www.redtape.com

You are requested to take the information on records.

For **MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**



**(Priyanka Pahuja)**  
Company Secretary

**Name:** Priyanka Pahuja  
**Address:** A-7, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, Delhi-110044  
**Membership No.:** 59086

# P's Apple challenge

The success of the scheme depends on how well the iconic brand's India manufacturing plans shape up. Significant hurdles remain

**SUBALINI DAS GUPTA**  
New Delhi, 23 March

The next 12 months could make or break for both Apple Inc in India and the government's ambitious flagship Production-Linked Incentive (PLI) scheme to encourage multinationals to manufacture locally, India is to Apple's second significant global hub. If the iconic brand, as analysts expect, shifts around 10 per cent of its mobile device manufacture from China to India, it could become the poster boy for India's bid to emerge as a global export powerhouse.


Apple's three principal original equipment manufacturers, who are eligible for the PLI scheme, have started shifting more production to India. Hon Hai, a unit of Foxconn, and Wistron, which has a unit in Bengaluru, have been importing capital equipment and assembly lines from China since last October. So far, Apple vendors have hired over 15,000 employees and are looking for more, and building millions of square feet of new space in their factories in readiness for a massive increase in production. The two players' investments of around ₹500 crore have already exceeded first year expectations. Pegatron, Apple's third major supplier, will locate its factory mid-year, though the location has not been identified yet.

The question is whether Apple can replicate the same impact that Samsung has achieved in Vietnam. That country has become the South Korean *fabulous*'s largest exporting base after it slowly moved out of China, shipping one out of every two Samsung smartphones. This is the result of a steady shift by Samsung to reduce its dependence on China by investing a staggering \$1.7 billion in the country. As a result, Vietnam's global share in telecom equipment (mobile devices being a large part) went up from 0.4 per cent in 2010 to 4.6 per cent in 2019. In the same period, India's share grew from 0.2 to 0.3 per cent.

According to sources privy to the projections, Apple's three original equipment makers (OEMs) have committed to touching \$3.5 trillion or a third of the \$9.5 trillion of incremental sales value of mobiles that they will manufacture in five years. Vendors eligible under the PLI scheme (five global players, including Samsung, and five Indian companies) are being given incentives of 4-6 per cent on the sales value if they meet specified production and investment targets (for phones with an invoice value of ₹200 each).

That apart, the three Apple vendors have committed exports of over 80 per cent of total sales value (which comes to ₹2.8 trillion) in five years or an average ₹56,000 crore a year. That is much higher than the government's expectation that all the mobile players put together will export 60 per cent of the total value of the sales. So Apple vendors will have to take a higher burden than other players, accounting for 45 per cent of total exports of mobile devices committed under the PLI scheme.

Apple vendors have also committed to direct employment under the PLI scheme of over 120,000 people — 60 per cent of the 200,000 jobs that the government expects to generate from mobile manufacturing.



**A BIG CALL: APPLE'S GLOBAL MOBILE SALES**  
(Market share %)



September 2020. But analysts suggest this number could go up to just about one per cent of Apple's global sales. So the main reason for Apple's India plans exists, unlike China where it has a large domestic market too.

There are challenges that could derail the PLI programme, which depends heavily on Apple's success. One is that, due to Covid-19, the PLI targets for the first year of 2019-20 cannot be met. The government gave the go-ahead to eligible players only in October, leaving just five months to go production rollout. Pegatron has been very slow in getting started.

Talks are expected soon with the government on extending the five-year PLI for another year or adjusting the first year's target over the next four years. Niti Aayog has been wary of extensions because it believes speed is of the essence.

The other more crucial issue is the government's restrictions on Chinese foreign direct investment, which could impact the creation of a component base for Apple's OEMs. Seventy per cent of the components are to be made by Chinese companies either in their country or in Vietnam, but if you don't allow them to make in India through FDI, it will take years before an Indian supply chain can make up the shortfall, said a component supplier to all leading mobile players. He points out that Vietnam does not have this problem.

The vendors could import the components, but that, too, is a sub-optimal solution. That is because the government also expects value addition in mobile devices to increase from 20-25 per cent to 35-40 per cent to save the burgeoning import bill for electronics.

There have been murmurs about the lack of a supply chain regime as well. For instance, the India Cellular and Electronics Association has complained that the imposition of 2.5 per cent duty in the latest Budget on certain components, especially those that are announced in PLI schemes in IT hardware (it is targeting Dell, Cisco, Quanta), components and sub-assemblies and looking at similar proposals for semiconductor and display fabrication plants, will add 10 new PLI announced to boost production and exports. Apple Inc needs to be the game changer.

# Religion and the workplace

**HEMA HATANGADY**

What role does one's religion play at the workplace?

In theory, zero. In practice, a lot.

At Conzerv Systems (which was sold to Schneider Electric Ltd in 2009), we respected all faiths and gave special privileges to none. As a principle it was easy enough to practise. But it was tough to resist negative demands for special allowances for different faiths. Let me share three stories to illustrate:

**1** While planning the inauguration of our new manufacturing facility and corporate office in Bengaluru, there was a general chorus that the programme should start with an invocation to goddess Laxmi/Saraswathi.

White had absolutely no objection to that, provided it was sung well. I was acutely aware that we had people from all faiths in the company. I decided, therefore, that we would have multi-faith prayers.

I invited a mullah to read and translate a few verses from the Koran; an English teacher from my son's school (which was a Christian institution) sang The Lord's Prayer; and a group of Conzervians sang the invocation to the Hindu goddess.

Later, as the guests walked around the beautiful new facility, I thought to myself, I feel the presence of something divine. Was it just the euphoria that the event had gone off without incident? Perhaps. What I did feel at that moment was sheer joy at seeing sisters from the Missionaries of Charity, the Muslim religious teacher and Hindu priests from the local temple, walking shoulder to shoulder, smiling and talking.


people of another faith, you pay. Over time, he realised there was no merit in wearing his faith on his sleeve and that, in this company, work was indeed worship. He saw hard work and talent was rewarded, almost out of proportion and conversely, especially those who followed the Islamic values code was punished.

**2** Just months after we had settled into our new corporate office, a young man from the shop floor asked me to earmark a place in the factory building for him and three others to offer prayers at specific times during the working day. He also said he wanted the supervisor to allow them time off for prayers. I told him we fully supported his right to his faith and to pray but that we could neither earmark a place nor give extra time off as it would be unfair to others. Instead, he could use the large common space we had leading to the top terrace where no one would intrude and adjust tea and lunch break times so they could pray.

The ususpoken "or else" from the company was that if he did not find this a satisfactory arrangement, they were free to resign.

Fortunately, all four of the operators agreed and the peace was not disturbed.

But the incident taught me, again, how important it was for our actions to reflect our policy of respect for all faiths with special privileges to none.



At the time, we were still in the early years of a painful turnaround and busy rebuilding morale across the company (for more, read *Lift Off — Transforming Conzerv* published by Westland, 2019).

One morning I came to work to find a visibly agitated works manager.

"What happened?" I asked. "The 'operator' this month is Muslim," he said.

"So?"

"Well, someone has scrawled a giant 'OM' symbol across his

photograph," he whispered. I was outraged. I asked the manager to go right back and tell the team on the shop floor that:

a) We considered this an offence and a violation of our code of conduct.

b) The offender would need to be come forward and if so, he or she would get a patient hearing, a warning and counselling and be let off.

c) If we did not get a voluntary confession, we would interview each one no matter how long it took, till we found the culprit.

Since no one came forward, we had the HR manager and the works manager talk to each person individually. All fingers pointed to one employee. In my conversation with him, I found him unrepentant, almost proud of what he had done. We gave him a written warning, transferred him to the stores area as an immediate penal measure and increased his supervision and started counselling.

These actions sent a signal to the rest of the company: You don't get special privileges just because you are of a certain faith even if it is in the "majority". And two, if you offend the feelings of

The writer is former CEO of Transforming Conzerv, published by Westland Books

# NEWSMAKER / ASHOK LAHIRI / BJP CANDIDATE FOR BALURGHAT, WEST BENGAL

## A catholic thinker in Hindutva's camp

**ADITI PHADNIS**

He's among the first set of psephologists India has had and has predicted victories and defeats of many in many elections. But can Ashok Lahiri, 70, former chief economic advisor, public policy analyst, economist and statistician, ensure his own victory in the West Bengal Assembly elections?

He is the Bhanjanta Janata Party (BJP) candidate from north Bengal — Balurghat, South Dinajpur district. He was dropped from Alipurduar because the party felt the local claimant and BJP General Secretary Suman Kanjilal had a protest when he and other BJP supporters protested Lahiri's candidature. Lahiri did not really help his case when he told reporters with disarming innocence and (maybe unintended) honesty that he had visited Alipurduar as a boy, reinforcing Kanjilal's assertion that the constituency did not want an "outsider" to represent it.

Big mistake.

If the BJP actually gets to form a government, Lahiri's name is at the top of several BJP lists for the post of finance minister. Alipurduar's look is that of an "outsider".

In West Bengal today, if there is a region safest for the BJP, it is north Bengal, comprising Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri, Alipurduar, Coochbehar, North Dinajpur and South Dinajpur districts. Together the region contributes 54 assembly seats in the 294-member Legislative Assembly. In the 2019 Lok Sabha elections, BJP won seven out of the eight seats in North Bengal.

But is Lahiri really such an "outsider"? Not at all, says Omkar Goswami, childhood friend, student, colleague and member of the Lahiri family fish-buying team (an important rite of passage in that part of the world). Lahiri is a "local boy" by all accounts. He belongs to a middle class family and was taught all the values that come with the upbringing: Deference to culture and religion; an acute consciousness of being a



Hindu but always with tolerance of other communities; and a healthy but not slavish respect for money. He began life like most famous sons of Bengal, at Presidency College, joined the Delhi School of Economics to research and teach and later joined Delhi University as a reader.

In the 1980s, economic liberalisation was some years away. But somewhere, the government was feeling its tentative way through a more modern India. Some of the best Indian brains had gone abroad, but elected to return to India and were waiting patiently for something in the system to give. The Policy Group — a set of Indian intellectuals deeply committed to India but dismayed at the smugness and insularity — offered intervention.

In policy, thus arose the first wave of the tide of consultancy and think-tank-ism. Prannoy Roy led the team of which Lahiri was an important member, and built the largest macro-economic think tank in the Indian economy. The team offered policy advice to government and business alike. Computers were new to India; but this team knew the value of the resource. Whether it

was analysing elections or predicting the outcome of a macro-policy intervention — they could do it with polish and élan.

But that, like the political pundit Psephology drew Roy to found New Delhi Television (NDTV). It began with the iconic *The World This Week*, the programme that marked the first private sector production of programmes on Doordarshan. When NDTV was up and running, the Policy Group concurred that Roy must get more air time than the other members of the team. Lahiri didn't agree. He opted out and left India, to earn some money. He did not intend to stay away for too long. But the IMF and World Bank kept him away for nearly a decade. Unlike others, the thought of settling abroad never occurred to him.

His friends say Lahiri was never a socialist and always tended to vote to the right. Mirza Dutta Chaudhuri, Sukhmayo Chakravarty and others were arguably more overtly in their thinking. But Lahiri came close. "They were at it, he was at it. Ashok hides his capabilities and never says a word, and he doesn't throw his weight around at all".

When he returned home, it was the directorship of the National Institute of Public Finance and Policy. When asked how a man who had been an economic policy guru in government became a Vidhan Sabha candidate of the BJP, a senior party leader said irritably: "*Lekin unko CEA behtar to vajayenge ne the?*". From 2002 to 2007, he served as chief economic advisor. First to Jaswant Singh and then to P Chidambaram. This was a tribute to the catholicity of his thought. This was followed by a stint at the ADR. In 2014, he is thought to have contributed to the manifesto of the BJP, though this is unconfirmed.

For economists engaged in public policy, the "where were you when the lights went out" moment is the 2016 demonetisation. Lahiri criticised the mass demonstration left behind but equivocated on the move itself ("time will tell").

For a BJP which is trying to whitewash its image in Bengal as a party comprising largely ramparts imported from the Trinamool Congress, Lahiri is a valuable face. He speaks full-throated Bangla and his Hindi is excellent. If it can't make a man like him win, the party should just curl up and die.

**MOIL LIMITED**  
(Formerly Management Oriented Industries Ltd.)  
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)  
MATERIALS DEPARTMENT  
MOIL BHAWAN, RAJ KATHARU, TALKATOWRI, BALURGHAT-751 013  
CIN: 2914019 (M) 010/1735  
MOIL GST Registration No.: 27AAACM392A1ZL  
MOIL GST Registration No.: 27AACA3M292A1ZT

**NOTICE INVITING TENDER**  
**E-PROUREMENT**

Tenders are invited from reputed Manufacturers for supply of the following materials:

Purchase tender no.: (1) WE-111 (2) WE-112  
\*Brief description of item: (1) Explosive & Accessories (e-reverse auction) (2) Prised Ammunition Nitrate

Tendering Address: Dy.G.M. (Materials), MOIL LIMITED, MOIL BHAWAN, 1A, KATOL ROAD, NAGPUR - 440 013, Ph.No. PBX: 0712-2806100, Fax No: 0712-2929260

For details of 'Notice Inviting Tender' and schedule of Tender, visit website: <http://www.moil.nic.in> and [www.eprocurement.gov.in](http://www.eprocurement.gov.in)

For participation in e-tendering visit website (MSTC): [www.mstc.commerce.gov.in](http://www.mstc.commerce.gov.in)

\*For detailed specifications & instructions, refer tender document. Any further updates/corrigendum will be uploaded in the above mentioned website & will not be published in newspapers. Bidders are requested to visit websites regularly to keep themselves updated.

Dy.G.M. (Materials)

**MOIL — Adding Strength to Steel**

**JAY IRON AND STEELS INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: U24190MH198PL0232497  
Regd. Off: 202B, Village - Kharsandi, Tal. Khatola, Dist. Raigarh (H. S.)  
Corp. Off: 207B, Sharda Chambers 7 Floor, New Marine Lines, Mumbai - 400020  
Tel. No.: 922-2293999/9182, Email: [jayironsteel@gmail.com](mailto:jayironsteel@gmail.com)

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**

This is to inform public at large that Jay Iron and Steels Industries Limited, formerly known as Ashbie Industries Limited, (hereinafter referred to as "the Company") has not received allotment money on ₹2,200 equity shares since the date of allotment and these shares remain partly paid up. In this regard, the board of directors of the Company issued first demand notice dated December 18, 2020 and Final call demand notice for full call dated January 29, 2021 and the concerned members whose shares remain partly paid up till January 14, 2021 ("Last date of payment first demand notice").

The board noted that the holder of ₹2,200 partly paid up equity share failed to pay the allotment money on February 18, 2021 ("Last date of payment final call demand notice"). Therefore, the board of directors in their meeting held on March 15, 2021 took the decision to forfeit the partly paid up shares on which allotment money had not been received by the Company along with the amount already paid up on such partly paid up shares.

You are advised that please do not transact on said partly paid up equity shares and to return the same to the Company for record. The Company has also cancelled all such shares after forfeiture. If anybody transacts in those forfeited shares the Company shall not be liable or responsible for such transactions.

By Order of the board of directors  
Jay Iron and Steels Industries Limited  
Sd/-  
Ajayvirkramesh Ghanshyamsingh Singi  
Director

Place: Mumbai  
Date: March 23, 2021

**INSECTICIDES (INDIA) LIMITED**  
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)  
Regd. Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110033  
CIN: U51912 DL 1988 P 038309 | Website: [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com)  
Tel No: 011-26787907-05 | E-Mail: [investor@insecticidesindia.com](mailto:investor@insecticidesindia.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, March 30, 2021 through video conferencing to consider and approve inter-alia the proposed buyback of ₹150 crore of the Company's equity shares of a face value of ₹ 10/- (Ten only) each, as well as all matters relating to the buyback.

This information is also available on the company's website [www.insecticidesindia.com](http://www.insecticidesindia.com) as well as on the website of the Stock Exchanges viz: the National Stock Exchange of India Limited — [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the BSE Limited — [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Insecticides (India) Limited  
Sd/-  
(Standing Kumar) Company Secretary  
Date: 23/03/2021  
Place: Delhi

**MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**  
CIN: U74110MH2003PL0030821  
Regd. Office: 111/112, Poonam Building, 1st Floor, Park Road, Khar West, Mumbai - 400052  
Tel: 022-26121111, 26121112, Email: [mirza@mirzainternational.com](mailto:mirza@mirzainternational.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given that Mirza International Limited (the "Company") has received request regarding transfer of shares in physical mode pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MRSD/DOCS/CR/P/2018/139 dated 6th November 2018 as mentioned below:

Folio No.	Name of the Transferor and Address.	Name of the Transferee and Address.	No. of Shares.	Distinctive No.
MTL007718	Shushila Maswara, Khar West, Mumbai	Rajendra R. Mantra, 22, New Jagrugh, Nagar Nandanam Rajia, Opp Dr. Dastidar Hospital, Rajkot - 360001	1000	4783071-480000

In case any person has claim(s)/objection(s) in respect of transfer of the above mentioned securities, he/she should lodge such claim(s) / objection(s) along with appropriate documentary evidence thereof in support of the claim(s)/objection(s) within 30 days from the date of this notice with the Company at its Registered Office or Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/S. KFin Technologies Private Limited at Solestarium Building, Tower Post No 31 & 32, Feinold District, Hanamantpeta, Hyderabad, Telangana - 500 032. If no claim(s)/objection(s) are received within the stipulated time of 30 days, the Company shall proceed with the transfer of aforesaid shares in favour of the transferee without any further intimation.

For Mirza International Limited  
Sd/-  
(Piyanka Patil)  
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 23.03.2021  
Place: New Delhi

**NMDC Limited**  
(A Government of India Enterprise)  
Khanij Bhawan, T-3/3/13A, Gurgaon, Haryana, Masrakh Tank  
Dist. Gurgaon, Haryana, India. CIN: 252326 DN 1985 P 021190

**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BUYING LIMESTONE**

NMDC Ltd., a Navratri Public Sector Company under the Ministry of Steel, Govt. of India, intends to develop a Limestone Mine of the rate of 5 Million Tonnes Per annum at Avri in Solan District of Himachal Pradesh. Out of a total area of 382.36 Ha, the party has acquired of 3.7 MTPA and Fines quantity of 3.7 MTPA will be available for Sale.

NMDC invites Expression of Interest from the interested parties along with their offers indicating their requirements in respect of quantity and quality per annum in Rs. per Tonne exclusive of applicable taxes.

A brief of the project, detailed product specifications and format for submitting the EOI can be viewed and for procurement from the NMDC's website <http://www.nmdc.co.in> and Central Procurement portal <http://www.eprocurement.gov.in> from 23.03.2021 to 23.04.2021.

For accessing the document from NMDC Website's Tender Section (<https://tenders.nmdc.co.in/indextender/>), the party has to register as 'New User'.

For accessing the document from Central Procurement Portal (<http://www.eprocurement.gov.in/expressionofinterest/>), the party has to register as 'Active Tenderer'.

For further clarifications contact: - Email: [smh@nmdc.co.in](mailto:smh@nmdc.co.in), Phone: 8000667318, 9160683322  
CO/MS (Resource Planning)

REGD. OFF: 8TH FLOOR, BHANU  
Date: 23/03/2021

**RED TAPE**  
Date: 23.03.2021  
Place: New Delhi

वित्त विधेयक में संशोधन डिजिटल कर में राहत

पृष्ठ 1 का शेष

वित्त मंत्री ने बजट में एंटी-एफ में संशोधन 2.5 लाख रुपये से अधिक श्रेणी पर अंतिम व्याज पर कर लागू का प्रस्ताव दिया था। हालांकि जिवा मासुली में नियोजना भी घोषणा करते हैं उनमें यह सीमा केवल 2.5 लाख रुपये होगी।

एलआईसी अभिनियम में बदलाव प्रस्तावों में संशोधन, 1956 में भारतीय अभिनियम एवं विधेयक (संशुद्ध) अर्थात् अर्थात् कोल और टेकस्ट मैसेज पर लागू लागाने के लिए जल्द ही उन डिफॉल्टर्स को सूची जारी कर सकता है, जिन्होंने नए नियमों का पालन नहीं किया।

नए एसएमएस नियम नहीं मानने वालों पर नजर

पेसा मंत्रालय नई दिल्ली, 23 मार्च

भारतीय एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है।

दिलकट पैदा होने के बाद वाणिज्यिक टेकस्ट मैसेज के लिए लागू नए नियम एक सप्ताह के लिए टाल दिए गए। इनमें 12 मार्च को बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और अन्य को टेक्स्ट मैसेजिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

नए नियमों के तहत वाणिज्यिक टेकस्ट मैसेज के लिए नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है।

ड्राई की मुहिम अनगूनी कॉल तथा एसएमएस को टैकस में बुद्धि विचारक 9 मार्च को नए नियमों के लिए नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

एंपोजीमेंटों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है।

एनएमडीसी लिमिटेड
नवीन कर्मियों के लिए भर्ती सूची
नवीन कर्मियों के लिए भर्ती सूची
नवीन कर्मियों के लिए भर्ती सूची

वस्तु निर्यात केवल 8 से 10 फीसदी कम रहेगा: गोपाल

श्रेया जय नई दिल्ली, 23 मार्च

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोपाल ने आज कहा कि देश पिछले साल के कारोबार के स्तर के नजदीक पहुंच रहा है। वस्तु निर्यात पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8 से 10 फीसदी कम है।

गोपाल ने कहा, 'हम साल के अंत में पर्यटन एवं आर्थिक क्षेत्रों को जोड़कर वैश्विक सेवा निर्यात के मामले में पिछले साल के स्तरों के मुकाबले 90 फीसदी के आसपास रहेंगे। हम वस्तु निर्यात में पिछले साल के लगभग कारोबार स्तर पर आ रहे हैं। संभवतया 8 से 10 फीसदी कमी रह सकती है।' उन्होंने कहा कि ये

सौर डेवलपर कर से पहले उठा रहे फायदा

श्रेया जय नई दिल्ली, 23 मार्च

आयातकों और सौर डेवलपर्स को अप्रैल 2022 से आयातक सौर सौर (बीसीडी) लागू करने के लिए बिजली परियोजना डेवलपर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश डेवलपर्स आयात करने से बीसीडी अर्थ हो रहे हैं।

सौर डेवलपर्स को अप्रैल 2022 से आयातक सौर सौर (बीसीडी) लागू करने के लिए बिजली परियोजना डेवलपर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश डेवलपर्स आयात करने से बीसीडी अर्थ हो रहे हैं।

सौर डेवलपर्स को अप्रैल 2022 से आयातक सौर सौर (बीसीडी) लागू करने के लिए बिजली परियोजना डेवलपर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश डेवलपर्स आयात करने से बीसीडी अर्थ हो रहे हैं।

सौर डेवलपर्स को अप्रैल 2022 से आयातक सौर सौर (बीसीडी) लागू करने के लिए बिजली परियोजना डेवलपर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश डेवलपर्स आयात करने से बीसीडी अर्थ हो रहे हैं।

जय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बिजली बढ़ेगी, तभी घटेगा कार्बन उत्सर्जन

ज्योति मुकुल नई दिल्ली, 23 मार्च

भारत को ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को 2050 तक पूरा करना जा सकता है लेकिन यह तभी संभव है जब विद्युत क्षेत्र को चार गुना बढ़ाया जाए और उसमें 90 फीसदी अक्षय ऊर्जा को चरमोत्तरी हो तब कोयले के उपयोग को चरमोत्तरी तक से समाप्त किया जाए।



और हम देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र 2050 तक न्यून उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

को बढ़ाकर देने के लिए एक उपयुक्त नीति और नवाचार से संश्लेषित संघर्ष को दरकार है। नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया। एसएमएस नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकती है।

एयर इंडिया के निजीकरण के लिए आरआरपीएफ

निष्कर्ष ओहरी नई दिल्ली, 23 मार्च

सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए अगले सात से 10 दिन में रिजल्ट फॉर प्रोपोजल (आरपीएफ) ला सकती है। इस प्रक्रिया में अंतिम चरण में निजीकरण के लिए आरआरपीएफ (आरपीएफ) द्वारा जारी की जाएगी।

सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए अगले सात से 10 दिन में रिजल्ट फॉर प्रोपोजल (आरपीएफ) ला सकती है। इस प्रक्रिया में अंतिम चरण में निजीकरण के लिए आरआरपीएफ (आरपीएफ) द्वारा जारी की जाएगी।

सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए अगले सात से 10 दिन में रिजल्ट फॉर प्रोपोजल (आरपीएफ) ला सकती है। इस प्रक्रिया में अंतिम चरण में निजीकरण के लिए आरआरपीएफ (आरपीएफ) द्वारा जारी की जाएगी।

मॉलिनियम
मॉलिनियम
मॉलिनियम
मॉलिनियम

वीएस सूडोकू 4004

7 2 6 5
9 5 2 8 2 3 1
8 4 3 5 6 1
8 3 9 5 4

परिणाम संख्या 4003

8 8 3 7 4 1 9 2 5
9 2 4 5 3 6 8 7 1
7 4 1 2 8 9 6 3 4
1 7 6 8 6 2 3 2 3 4 9
3 9 2 6 1 4 5 8 7

मॉरिटोरियम में ब्याज पर ब्याज नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

आदेश में कहा गया है, 'जब पूरे राज्य-विचार के साथ परिशोधन के दौरान ब्याज माफ नहीं करने का निर्णय लिया गया है और आर्बीआईएफ-कर्म भूतान्त से अस्थायी राहत देने की सहित कुछ दूसरे उपाय भी अपनी तरफ से पहले ही कर चुका है तो इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप सही नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है, 'जब पूरे राज्य-विचार के साथ परिशोधन के दौरान ब्याज माफ नहीं करने का निर्णय लिया गया है और आर्बीआईएफ-कर्म भूतान्त से अस्थायी राहत देने की सहित कुछ दूसरे उपाय भी अपनी तरफ से पहले ही कर चुका है तो इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप सही नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है, 'जब पूरे राज्य-विचार के साथ परिशोधन के दौरान ब्याज माफ नहीं करने का निर्णय लिया गया है और आर्बीआईएफ-कर्म भूतान्त से अस्थायी राहत देने की सहित कुछ दूसरे उपाय भी अपनी तरफ से पहले ही कर चुका है तो इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप सही नहीं होगा।

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

हवाई अड्डों पर प्रशिक्षण स्कूल के लिए पांच को बोली

बहुत कम जाने-पहुंछाने उद्योगों और जोरपाटा समूह को एक कंपनी समेत पांच कंपनियों ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास हवाई अड्डों-बेलागावी, जलगांव, कलसूरी, खडगुआ और लोलाबाड़ी में प्रशिक्षण स्कूल बनाने के लिए बोली पेश की है।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

Table with 2 columns: Item Name and Price/Quantity. Includes items like 8300/8500, 9100/9400, 6900/7100, etc.

रजस्थान

Table with 2 columns: Item Name and Price/Quantity. Includes items like 1800/1900, 2000/2200, 2300/2500, etc.